



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171]  
No. 171]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 1983/चैत्र 18, 1905  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 1983/CHAITRA 18, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1983

का०आ० 282(अ)/18-कक/आई०डी०आर०ए०/83 :—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 602 (अ)/18-कक/आई०डी०आर०ए०/74, तारीख 9 अक्टूबर, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति निकाय को सैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्फैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबंध 9 अक्टूबर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली पात्र वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 567 (अ)/18-कक/आई०डी०आर०ए०/78 तारीख 25 सितम्बर, 1978 द्वारा उक्त व्यक्ति निकाय के स्थान पर उक्त औद्योगिक उपक्रम के मुख्य अधिशासक श्री पी०एन० रामचन्द्रन को प्रतिस्थापित किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 572(अ)/18-कक/आई०डी०आर०ए०/79 तारीख 8 अक्टूबर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

36 GI/83

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 866(अ)/18-कक/आई०डी०आर०ए०/80, तारीख 29 अक्टूबर, 1980 द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के उपमहाप्रबन्धक श्री के०एम० बनर्जी को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 738/18-कक/आई०डी०आर०ए०/81, तारीख 6 अक्टूबर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अप्रैल, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 263(अ)/18-कक/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 8 अप्रैल, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1982 तक, जिनमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 719(अ)/18-कक/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 8 अक्टूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 जनवरी, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 8(अ)/18-कक/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 7 जनवरी, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी;

(1)

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश 8 अक्टूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[कांस० 2(23)/79-सी०यू०एस०]

ए०पी०सरवान, सयुक्त सचिव

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 8th April, 1983

**S.O. 282(E)/18AA/IDRA/83.**—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 602(E)/18AA/IDRA/74, dated the 9th October, 1974 (hereinafter referred to as the said order) made in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government authorised a body of persons specified therein to take over the management of M/s. Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, for a period of five years commencing from 9th October, 1974 and the said body of persons was replaced by Shri P. N. Ramachandran, Chief Executive of the said industrial undertaking by order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 567(E)/18AA/IDRA/78 dated the 25th September, 1978;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 572(E)/18AA/IDRA/79 dated the 8th October, 1979, the duration of the said order was extended upto and inclusive of the 8th October, 1981;

And, whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 866(E)/18AA/IDRA/80 dated the 29th October, 1980, the Central Government authorised Shri K. M. Banerjee, Deputy General Manager, Bharat Heavy Electrical Ltd., Calcutta, to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 738(E)/18AA/IDRA/81, dated the 6th October, 1981, the duration of the said order was further extended upto and inclusive of the 8th April, 1982;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 263(E)/18AA/IDRA/82, dated the 8th April, 1982, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th October, 1982;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 719(E)/18AA/IDRA/82 dated the 8th October, 1982, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th January, 1983;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 8(E)/18AA/IDRA/83 dated the 7th January, 1983, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th April, 1983;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th October, 1983.

[File No. 2(23)/79-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.